



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 57]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 20, 2005/पौष 30, 1926

No. 57]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 20, 2005/PAUSA 30, 1926

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2005

(आयकर)

**का.आ. 68(अ).**—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (15) के उप-खण्ड (iv) की मद (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त मद के प्रयोजनार्थ वित्त वर्ष 2001-2002 एवं 2002-2003 के अन्तर्गत मैसर्स नार्थ इस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लि. (एन.ई.ई.पी.सी.ओ.), शिलांग, द्वारा जारी किए गए निम्नलिखित कर मुक्त बंधपत्रों को विनिर्दिष्ट करती है :—

बंधपत्रों का प्रकार	जारी रकम (करोड़ रुपयों में)	प्रत्येक बंधपत्र का अंकित मूल्य (लाख रुपयों में)	व्याज दर	परिपक्वता अवधि	विशिष्ट संख्याएं
9.00% सुरक्षित गैर-परिवर्तनीय मोचनीय कर-मुक्त बंधपत्र 2001-2002 (VII निर्गम)	15.00	10	9.00% प्रति वर्ष	10 वर्ष	ज 0000001 से ज 0000150
9.85% सुरक्षित गैर-परिवर्तनीय मोचनीय कर-मुक्त बंधपत्र 2001-2002 (VII निर्गम)	18.30	5	9.85% प्रति वर्ष	10 वर्ष	झ 0000001 से ज 0000366
7.90% सुरक्षित गैर-परिवर्तनीय मोचनीय कर-मुक्त बंधपत्र 2002-2003 (VIII निर्गम)	95.00	10	7.90% प्रति वर्ष	7 वर्ष	अ 0000001 से अ 0000950

बशर्ते कि उक्त मद के अन्तर्गत लाभ तभी ग्राह्य होगा यदि ऐसे बंधपत्रों का धारक अपना नाम एवं कृति उक्त निगम के पास पंजीकृत करवा देता है।

[अधिसूचना सं. 7/2005/फा. सं. 178/13/2003 आयकर नि.-I]

दीपक गर्ग, अवर सचिव

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th January, 2005

**(INCOME TAX)**

**S.O. 68(F).**—In exercise of the powers conferred by item (h) of sub-clause (iv) of clause (15) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies the following Taxfree bonds issued by M/s. North Eastern Electric Power Corporation Ltd. (NEEPCO), Shillong during the financial year 2001-2002 and 2002-2003, for the purpose of the said item :—

Nomeenclature of the Bonds	Issue amount (Rupees crores)	Face value of each bond (Rupees Lakh)	Interest rate	Maturity period	Distinctive numbers
9.00% Secured Non-Convertible Redeemable Taxfree Bonds 2001-02 (VII Issue)	15.00	10	9.00% per annum	10 years	H 0000001 to H 0000150
9.85% Secured Non-Convertible Redeemable Taxfree Bonds 2001-02 (VII Issue)	18.30	5	9.85% per annum	10 years	I 0000001 to H 0000366
7.90% Secured Non-Convertible Redeemable Taxfree Bonds 2002-03 (VIII Issue)	95.00	10	7.90% per annum	7 years	J 0000001 to J 0000950

Provided that the benefit under the said item shall be admissible only if the holder of such bonds registers his/her name and the holding with the said Corporation.

[Notification No. 7/2005/F. No. 178/13/2003-JTA. I]

DEEPAK GARG, Under Secy.